

स्वस्थ भारत यात्रा का बगड़ी में किया गया स्वागत

Dausa News - स्वस्थ भारत यात्रा का मंगलवार को बगड़ी में स्वागत किया गया। सीएमएचओ डॉ. ओपी बैरवा ने यात्रा की अगुवानी की बगड़ी में...

Dainik Bhaskar

Jan 16, 2019, 05:16 AM IST

स्वस्थ भारत यात्रा का मंगलवार को बगड़ी में स्वागत किया गया। सीएमएचओ डॉ. ओपी बैरवा ने यात्रा की अगुवानी की बगड़ी में एडिशनल डायरेक्टर एफएसएसएसआई अशोक कुमार मिश्रा फूड सेफ्टी अधिकारी काजल ठाकुर , ट्रैक हेड कानंद देव, एंकर प्रफल देवालय व समन्यवक डेनियल का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉ.ओपी बैरवा आईइसी कॉर्डिनेटर नीतेश सोनी फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर महेन्द्र चतुर्वेदी, जय सिंह यादव मौजूद थे। सवाई माधोपुर से आई टीम के फूड इंस्पेक्टर प्रेम चन्द, वेद प्रकाश आई इसी कॉर्डिनेटर प्रियंका ने यात्रा की बैटन जिला अधिकारियों को सौंपी।

इस अवसर पर सीएमएचओ डा. ओ पी बैरवा ने बताया कि यात्रा जिले में 18 जनवरी तक रहेगी। इस दौरान पौष्टिक आहार और स्वस्थ रहने का संदेश दिया जाएगा। बैरवा ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण, द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आम जनता को पोषक आहार एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिये स्वस्थ भारत यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच भी की जाएगी। इसके लिए लालसोट और दौसा दोनों जगह कार्यक्रम स्थलों पर एक फूड टेस्टिंग वैन भी मौजूद रहेगी। संपल जांच का परिणाम दो घंटे में दे दिया जाएगा। 16 जनवरी को लालसोट में जमात पावर हाउस से राउमावि, दौसा रोड तक प्रभात फेरी निकाली जाएगी। तथा 17 जनवरी को सुबह 9 बजे साइकिल यात्रा लालसोट के ज्योतिबा फुले सर्किल से दौसा मुख्यालय के लिए रवाना होगी। 19 जनवरी को यात्रा दौसा जिले से अलवर जिले के लिए प्रस्थान कर जाएगी।